FINANCIAL EXPRESS

# **NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED**

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015. Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982,

Email Id.; investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com, Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125 005, Haryana EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

	93	Consolidated					
Sr.	P. diester	For the	For the year ended				
No	Particulars	30th June, 2023	31st March, 2023	30th June, 2022	31st March 2023		
8 8	k:	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1 2	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,	2,517.45	957.57	761.14	13,350.36		
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	2,369.13	796.14	1,238.94	12,435.19		
4	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	2,399.42	796.54	1,238.05	12,434.35		
5	Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax)	1,659.02	557.03	923.26	9,258.26		
6 7 8	and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity	1,41,264.46 513.62	(521.05) 513.62	(1,72,297.64) 513.62	5,874.99 513.62 7,98,836.74		
٥	Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic:  2. Diluted:	32.30 32.30	10.85 10.85	17.98 17.98	180.26 180.26		

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

	Standalone					
B-d-t-	For the	quarter ended		For the year ended		
Particulars	30th June, 2023	31st March, 2023	30th June, 2022	31st March 2023		
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,	2,220.53	670.46	468.09	11,207.12		
Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	2,139.69	575.87	386.77	10,911.63		
Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	2,139.69	575.87	386.77	10,911.63		
Exceptional and/or Extraordinary items)	1,577.94	392.44	281.49	8,094.64		

The financial result of the Company for the quarter ended on June 30, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12th August, 2023 and limited review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company

Theses results have been preparted in accordance with the Companies(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. By order of the Board of Directors

For Nalwa Sons Investments Limited Rakesh Kumar Garg Place: Gurugram Executive Director & C.E.O. Date: 12th August, 2023 DIN: 00038580



# unistar Universal Cables Limited

Regd. Office: P. O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.) Phone: (07672) 257121 to 257127, 414000 - Fax: (07672) 416228 E-mail: headoffice@unistar.co.in - Website: www.unistar.co.in CIN-L31300MP1945PLC001114

AN IS/ISO 9001, 14001 & 45001 COMPANY

#### **Extract of Unaudited Consolidated Financial Results** for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023

		(3)		30 0	(₹ in lakhs)
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	47940.85	58287.46	51380.43	220195.08
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3200.90	5409.89	3496.66	15150.47
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3200.90	5409.89	3496.66	15150.47
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2404.59	4105.56	2677.18	11815.21
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7034.21	15256.81	(3686.87)	20702.58
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	3469.83	3469.83	3469.83	3469.83
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve)		1.0		141426.11
8	Basic & Diluted Earnings per share (Face Value ₹ 10/- each) (not annualised)	6.93	11.83	7.72	34.05

Key Unaudited Standalone Financial Information of the Company is as under:-

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	47940.85	58287.46	51380.43	220195.08
2	Net Profit for the period before Tax	1265.10	1991.35	2029.04	8310.74
3	Net Profit for the period after Tax	916.42	1457.56	1506.36	6318.86
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3074.03	11692.27	(2237.82)	15029.13

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended 30" June, 2023, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations S and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above quarterly results are available on the stock ! exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.unistar.co.in.

for Universal Cables Limited

(Harsh V. Lodha)

Chairman DIN: 00394094



Place: Kolkata

Date: 12.08.2023

#### KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED CIN - U67200MH1996PLC097730

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Website: www.Kotak.com Telephone: +91-22-61660000

# Extract of financial results for quarter ended June 30, 2023

					(₹ In Lakhs)
Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	86,709.65	80,866.72	67,833.83	2,99,446.47
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	28,893.51	31,263.02	28,086.17	1,27,075.93
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	28,893.51	31,263.02	28,086.17	1,27,075.93
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	21,551.69	23,253.89	20,967.71	94,753.08
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	46,811.32	28,487.20	18,569.65	1,00,841.59
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per share)	349.52	349.52	349.52	349.52
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	10,15,573.52	9,70,499.21	8,88,270.64	9,70,499.21
8	Securities Premium Account	53,075.16	53,075.16	53,075.16	53,075.16
9	Net Worth	10,68,648.68	10,23,574.37	9,41,345.80	10,23,574.37
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	23,57,046.76	22,63,926.77	18,64,572.99	22,63,926.77
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-1	_	<u> </u>	-7
12	Debt Equity Ratio	2.21	2.21	1.98	2.21
13	Earnings per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations) -				
- 1	1. Basic	616.61	665.31	599.90	2,710.95
	2. Diluted	616.61	665.31	599.90	2,710.95
14	Capital Redemption Reserve	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Debenture Redemption Reserve	_	, –	J	- 1
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

17 Interest Service Coverage Ratio

Date and Place: August 12, 2023, Mumbai

financialexp.epapr.in

- 1) The above results have been reviewed and recommended for Board approval by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at the meeting held on August 12, 2023. The results have been subjected to "Limited Review" by the statutory auditors.
- 2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requiremnets) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company at www.kotak.com
- 3) For the items referred in sub-clauses (a), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com
- 4) Figures for the previous year have been regrouped wherever necessary to conform to current period/year presentation

For and on behalf of the Board of Directors

Vyomesh Kapasi **Managing Director** 



#### E-Auction – Punj Lloyd Limited (in Liquidation) Sale of assets of the Company the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

The Liquidator of Punj Lloyd Limited ("Company") is announcing the fresh round of public e-auction for sale of lots of movable assets owned by the Company and located in the Countries of Oman and Kuwait on a collective basis: on 'as is where is basis', 'as is what is basis', 'whatever there is basis', and 'without recourse basis'; in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended and the rules and regulations made thereunder. nterested applicants may refer to the detailed E-Auction Process Information Document uploaded on

website of the Company http://www.punjlloydgroup.com/liquidation-documents and also on E-Auction website www.eauctions.co.in.

The Auction Sale will be done through the E-Auction platform: www.eauctions.co.in.

Lot	Description	Sale	of E-Auction	(in USD)	deadline
	Movable Assets owned by the Company and located in the Country of Oman	Collective Basis	18 September 2023 from 10:00 hours GST to 18:00 hours GST	USD 3,694,000/-	USD 369,400/- On or before 14 September 2023
	Movable Assets owned by the Company and located in the Country of Kuwait		18 September 2023 from 10:00 hours GST to 18:00 hours GST	USD 4,000/-	USD 400/- On or before 14 September 2023

documents on or before 29 August 2023 as provided in the E-Auction Process Information Document. The Liquidator reserves the right to amend the key terms of the sale process including timelines for the e-auction to the extent permissible under the applicable laws and regulations. Any information about amendments /extension of any of the timelines will be available on the Company's website and communicated to the Qualified/ Successful Bidder.

Nothing contained herein shall constitute a binding offer or a commitment for sale of assets of the Company pursuant to this e-auction,

Please feel free to contact Mr. Ashwini Mehra at LQ.PUNJ@in.gt.com or Mehra.ashwini@gmail.com or Mr. Surendra Raj Gang at Surendra.raj@in.gt.com in case any further clarification is required.

> Liquidator (Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706) Punj Lloyd Limited - in Liquidation Authorization for Assignment valid till -23 March 2024 Correspondence Address: Mr. Ashwini Mehra, Liquidator

Reserve EMD Amount (in

C/O Mr. Surendra Raj Gang GT Restructuring Services LLF L-41, Connaught Circus, New Delhi - 110001, E: LQ.Punj@in.gt.com AMRAPALI FILMS LIMITED

CIN NO.L92111WB1975PLC030251 Regd. Office: 3-D, Duckback House,41,Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 Website: www.http://amrapalifilms.com/; Email ID amrapalifilms@gmail.com; Phone No.0612-2672962

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023** 

	Quarter	Quarter	Year
PARTICIJI ARS	ended	ended	ended
TARTIOULARO			
(4)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	69.38	160.63	412.73
Net Profit/ (Loss) for the quarter			
(before Tax, Exceptional and/or			
Extraordinary Items)	10.13	56.51	28.49
Net Profit/(Loss) for the quarter			
before tax"(after Exceptional			
and/ or Extraordinary Items)	10.13	56.51	28.49
Net Profit/(Loss) for the period			
after tax"(after Exceptional and/			
or Extraordinary Items)	10.13	56.51	26.06
Total Comprehensive Income			
for the period [Comprising Profit			
/ (Loss) for the period (after tax)			
and Other Comprehensive			
Income (after tax)]	10.13	56.51	26.06
Equity Share Capital	4.02	4.02	4.02
Earnings Per Share			
(of Rs. 10/- each)			
Basic:	2.52	14.06	6.48
Diluted :	2.52	14.06	6.48
	Net Profit/ (Loss) for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the quarter before tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic:	PARTICULARS  ended 30-June-2023 (Unaudited)  Total income from operations (net) Net Profit/ (Loss) for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the quarter before tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic:  2.52	PARTICULARS  ended 30-June-2023 (Unaudited)  Total income from operations (net) Net Profit/ (Loss) for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the quarter before tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic:  ended 30-June-2022 (Unaudited)  10.13 56.51  10.13 56.51  10.13 56.51  10.13 56.51  10.13 56.51  2.52 14.06

 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.amrapalifilms.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Kolkata Date: 12.08.2023

Ajay Kumar Kataruka WHOLETIME DIRECTOR (DIN -00269556)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

Punj Lloyd Limited



Date: 14 August 2023

Place: New Delhi

PUBLIC ANNOUNCEMENT

# **RKSWAMY** R K SWAMY LIMITED

Our Company was incorporated as "R. K. Swamy Advertising Associates Private Limited" on February 16, 1973, as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Madras, On September 11, 1990, a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Madras, pursuant to change of name of our Company to "R. K. Swamy BBDO Advertising Private Limited". On April 01, 1997, our Company became a deemed public limited company under section 43-A(2) of the Companies Act, 1956 and consequently the name of our Company was changed to "R. K. Swamy BBDO Advertising Limited". On March 26, 2001, the name of our Company was changed to "R. K. Swamy BBDO Advertising Private Limited" under section 43-A(2A) of the Companies Act, 1956, pursuant to an amendment to the Companies Act, 1956 with respect to deemed public company. On February 21, 2005, a fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("RoC"), pursuant to change of our Company name to "R. K. Swamy BBDO Private Limited". On June 21, 2022, a fresh Certificate of Incorporation was issued by the RoC, pursuant to change of name of our Company to "R K Swamy Private Limited". Pursuant to the conversion of our Company into a public limited company and as approved by our Board on June 16, 2023, and a special resolution passed by our Shareholders on July 3, 2023, the name of our Company was changed to "R K Swamy Limited", and the RoC issued a fresh certificate of incorporation on July 17, 2023. For details of changes in our name and the Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters - Brief history of our Company" and "History and Certain Corporate Matters - Changes in the registered office of our Company" on page 191 of the Draft Red Herring Prospectus dated August 11, 2023 ("DRHP").

Registered Office: No. 19, Wheatcrofts Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India; Corporate Office: Esplanade House, 29, Hazarimal Somani Marg, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra, India Contact Person: Aparna Bhat, Compliance Officer and Rajagopalan Desikan, Company Secretary; Telephone: +91 22 4057 6499; E-mail: secretarial@rkswamy.com; Website: www.rkswamy.com Corporate Identity Number: U74300TN1973PLC006304

### OUR PROMOTERS: SRINIVASAN K SWAMY (SUNDAR SWAMY) AND NARASIMHAN KRISHNASWAMY (SHEKAR SWAMY)

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF R K SWAMY LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,150 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 8,700,000 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"), COMPRISING UP TO 1,788,093 EQUITY SHARES BY SRINIVASAN K SWAMY AGGREGATING UP TO 🕏 [+] MILLION, UP TO 1,788,093 EQUITY SHARES BY NARASIMHAN KRISHNASWAMY AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 4,445,714 EQUITY SHARES BY EVANSTON PIONEER FUND L.P. AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND UP TO 678,100 EQUITY SHARES BY PREM MARKETING VENTURES LLP AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (CONSTITUTING UP TO [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [\*] % AND [\*]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹ [+] ON THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT").

THE PRICE BAND, THE MINIMUM BID LOT SIZE AND THE EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [+], AN ENGLISH DAILY NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [+], (A HINDI DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [+], (A TAMIL DAILY NEWSPAPER, TAMIL BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TAMIL NADU WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10. Working Days. In cases of force majeure, strike or similar circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein not less than 75% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis, in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, up to [•] Equity Shares aggregating up to ₹ [•] million will be available for allocation to Eligible Employees, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors ("Non-Institutional Category") of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1.00 million and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price, All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or pursuant to the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. For details, see

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated August 11, 2023 with the SEBI on August 12, 2023. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, the website of the Company at www.rkswamy.com and the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. SBI Capital Markets Limited, IIFL Securities Limited and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.sbicaps.com, www.iiflcap.com and www.motilaloswalgroup.com respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs on or before 5.00 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer, For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific ttention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 28 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the share capital and capital structure of our Company, please see the section titled 'Capital Structure' beginning on page 70 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled 'History and Certain Corporate Matters' on page 191 of the DRHP.

	REGISTRAR TO THE OFFER		
O SBICAPS Complete tree street Banking Solutions	<b>IIFL</b> SECURITIES	MOTILAL OSWAL	▲ KFINTECH
SBI Capital Markets Limited Unit No. 1501, 15" floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo Building, Plot C- 38, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4006 9807 E-mail: rkswamy.ipo@sbicaps.com Investor grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com	IIFL Securities Limited  10* Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai – 400 013, Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728 E-mail: rkswamy.ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Contact person: Pawan Jain / Rahul Anand SEBI registration no.: INM000010940	Motilal Oswal Investment Advisors Limited Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi Mumbai – 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 7193 4380 E-mail: rkswamy.ipo@motilaloswal.com Investor grievance e-mail: moiaplredressal@motilaloswal.com Website: www.motilaloswalgroup.com Contact person: Sankita Ajinkya / Ritu Sharma	KFin Technologies Limited Selenium, Tower B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 / 18003094001 E-mail: rkswamy.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

On behalf of the Board of Directors

Contact person: M. Murali Krishna

SEBI registration no: INR000000221

Rajagopalan Desikan

Company Secretary

For R K SWAMY LIMITED

RKSWAMY LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated August 11, 2023 with the SEBI on August 12, 2023. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, the website of the Company at www.rkswamy.com and the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. SBI Capital Markets Limited, IIFL Securities Limited and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.sbicaps.com, www.iiflcap.com and www.motilaloswalgroup.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled 'Risk Factors' on page 28 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any state law of the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act or any state law of the United States. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.



N.A.



Place: Chennai Date: August 12, 2023

Contact person: Aditya Deshpande

SEBI registration no.: INM000003531



New Delhi

SEBI registration no.: INM000011005

R K SWAMY/Adfactors



#### चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 2, 'डेयर हाउस' प्रथम तल, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर ६, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्नर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के साथ पिठत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ९(१) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार / सह–कर्जदार / बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक / भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चूका है। प्रतिभूत आस्तियां **"जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएम जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001525465 1. गुरप्रीत कौर	27—02—2020 रू. 3,56,34,225.55/—	सम्पत्ति सं. 250 का सम्पूर्ण द्वितीय तल हिस्सा, विकास पुरी, नई दिल्ली, छत के अधिकार सहित, सम्पत्ति में दो	₹5. 2,60,00,000 / —	05-09-2023
	ए–250, द्वितीय तल, ब्लॉक–ए, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018	कब्ना का प्रकार	र्बेडरूम, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, स्टोर, किचेन और दो टॉयलेट्स के साथ सभी फिटिंग और फिक्सचर्स तथा	জ. 26,00,000 /— জ. 1,00,000 /—	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	ए—250, द्वितीय तल, ब्लॉक—ए, विकास पुरी, नई दिल्ली—110018	भाातक	सम्पत्ति के भूतल और प्रथम तल पर वाटर टैंक तथा टीवी ऐंटीना लगाने को छोड़कर भू तल पर कार पार्किंग के उपयोग के अधिकार शामिल हैं।	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	04—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	ऋण खाता सं. X0HEELD00003010577 एवं HE02ELD00000001224 एवं X0HEELD00003116864	29—10—2021 ₹5.	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति दुकान नंबर	জ. 2,60,00,000 ∕ − জ. 26,00,000 ∕ −	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. दीपक केशवानी पुत्र मोती राम केशवानी, बी 1/71 फेज–2, अशोक विहार, नई दिल्ली–110052,	2,67,14,734.46	442 सी एवं 442 डी , दोनों दुकान परिमाप 45.77 वर्ग मीटर भू तल पर तथा एक दुकान नंबर 441 1/2, परिमाप 85.37 वर्ग मीटर प्रथम तल पर छत/आकाश	%. 1,00,000 / —	04-09-2023
	2. मैसर्स वीआईपी फुटवियर्स, 2339/15, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली—110005, 3. प्रदीप केशवानी पुत्र मोती राम केशवानी, बी 1/71 फेज—2, अशोक विहार, नई दिल्ली—110052, 4. सारिका केशवानी पत्नी दीपक केशवानी, बी 1/71 फेज—2, अशोक विहार, नई दिल्ली—110052, 5. मैसर्स मोती सन्स, 442 सी एवं 442 डी कटरा नबी बक्स, सदर बाजार, नई दिल्ली—110006	कड्ना का प्रकार साकावक	वो मीटर प्रथम तल पर छत्/आकाश के अधिकार सहित, स्थित कटरा नबी बक्स, सदर बाजार, नई दिल्ली—110006		पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
3.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001371151, X0HEDHE00001162337 एवं X0HEDHE00001017249	13-09-2019	सम्पत्ति १ सम्पत्ति सं. ४६–बी (पुराना) तथा नया नंबर	₹5. 55,00,000 / -	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. रवि प्रकाश साध एच. नंबर बी–45, प्रथम तल, ब्लॉक–बी, ईस्ट कृष्ण नगर,	र्फ. 2,43,04,701.59 ∕ −	बी—45 (पार्ट) का प्रथम तल पोर्शन, खसरा नंबर 1048 ∕ 824 ∕ 3, ईस्ट कृष्ण नगर, ग्राम चंद्रावली, ■ शाहदरा, नई दिल्ली— 110051	জ. 5,50,000 / — জ. 1,00,000 / —	04-09-2023
	नई दिल्ली—110051 2. रवि प्रकाश साध मैसर्स रवि पेंट्स	कब्जा का प्रकार भाातक	सम्पत्ति २ सम्पत्ति सं. ४६–बी (पुराना) तथा नया नंबर बी–४५ (पार्ट) का सम्पूर्ण द्वितीय तल पोर्शन, खसरा नंबर	<b>জ.</b> 55,00,000 / —	पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
	सी—11, प्रथम तल, ईस्ट आजाद नगर, कृष्ण नगर, नई दिल्ली—110051 3. रिव प्रकाश साध मैसर्स रिव पेंट्स ई—228, सेक्टर—63, नोएडा—201301 4. संदीप साध एच. नंबर बी—45, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, ईस्ट कृष्ण नगर, नई दिल्ली—110051 5. सुनीता रानी साध एच. नंबर बी—45, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, ईस्ट कृष्ण नगर, नई दिल्ली—110051		1048/824/3, ईस्ट कृष्ण नगर, ग्राम चंद्रावली, शाहदरा, नई दिल्ली— 110051	জ. 5,50,000 / — জ. 1,00,000 / —	
1.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001202326 एवं X0HEDHE00000922010	20—03—2020 रज. 88,93,975.31 / —	सम्पत्ति सं. बी–165 का सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 110 वर्ग गज, खसरा	জ. 50,00,000 ∕ — জ. 5,00,000 ∕ —	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. राहुल अत्रेय एच. नंबर 165, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, हरि नगर, नई दिल्ली—110028	·	नंबर 2012, स्थित ग्राम तिहाड़, कालोनी हरि नगर घंटा घर के नाम से ज्ञात, नई दिल्ली	জ. 50,000 ∕ −	04-09-2023
	2. प्रवेश राजपूत एच. नंबर 165, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, हरि नगर, नई दिल्ली—110028 3. यश पाल सिंह	कब्जा का प्रकार भातक			पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
5.	एच. नंबर 165, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, हिर नगर, नई दिल्ली—110028 ऋण खाता सं. X0HEDHE00000389629,	40.00.000		TE 40500000 /	05-09-2023
J.	1. अशोक कुमार गर्ग एफ नंबर 47, लकी होम अपा. सेक्टर—13, रोहिणी, निकट भगवती	12—06—2021 रू. 76,83,163 / —	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्लैट नंबर 47, भू तल, प्लॉट नंबर 19/1 पर निर्मित, सेक्टर—13, रोहिणी, दिल्ली	জ. 1,35,00,000 / — জ. 13,50,000 / — জ. 1,00,000 / —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	हॉस्पिटल, नई दिल्ली—110085 2. कुसुम गर्ग	कब्जा का प्रकार	ताल्ना, १५०४॥	v. 1,00,000/ <del>-</del>	04—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे
_	एफ नंबर 47, लकी होम अपा. सेक्टर—13, रोहिणी, नई दिल्ली—110085	साकतिक			भेंट के निर्धारित समयानुसार
3.	ऋण खाता सं. X0HEELD00001672148 एवं X0HEELD00001672125 1. अशोक कुमार त्यागी	12-06-2021 ₹5. 29,27,045.36 / -	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 34–बी, परिमाप 197.43 वर्ग गज, खसरा नंबर 82 मिन,	फ. 59,00,000 ∕ — फ. 5,90,000 ∕ —	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. अशाक कुमार त्यागा बी 34, पंचशील एन्क्लेव, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा—201303 2. विनीता त्यागी	कब्जा का प्रकार	स्थित ग्राम चिपियाना बुजुर्ग, पंचशील एन्क्लेव, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर	জ. 1,00,000 ∕ —	04—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे
	बी 34, पंचशील एन्क्लेव, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा—201303	सांकेतिक			भेंट के निर्धारित समयानुसार
	ऋण खाता सं. X0HEDES00001826781 एवं X0HEDES00001826785	10-06-2021	सम्पत्ति सम्पत्ति सं. 27, वार्ड नंबर 8, परिमाप 120 वर्ग गज, बनिया वाड़ा, सीही गेट, बल्लभगढ़, तहसील		05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. बलराज गोयल, एच. नंबर 27, गली नंबर 1, वार्ड नंबर 8, बनियावन, सीही गेट, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़—121004	<b>ক্ত. 34,49,988.66 ∕</b> −	विला विज्ञा, साहा गट, बल्लमगढ़, तहसाल बल्लभगढ़ एवं जिला फरीदाबाद दक्षिण—अन्य की सम्पत्ति	₹50,000/-	04-09-2023
	2. विनोद कुमार एच. नंबर 27, गली नंबर 1, वार्ड नंबर 8, बनियावन, सीही गेट, बल्लभगढ,	कब्जा का प्रकार सांकेतिक	drylld		पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
	बल्लभगढ़—121004 3. सोभा राम हरीश चंद दुकान नंबर 93, नई अनाज मंडी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद—121001 4. नीतू रानी एच. नंबर 27, गली नंबर 1, वार्ड नंबर 8, बिनयावन, सीही गेट, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़—121004	XIII			नट क गिवासी समयापुसार
3.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001577089, 1. देश बन्धु 160 / 30, गली नंबर 3, रामेश्वर नगर, नई दिल्ली—110019	15─02─2022 ₹5. 18,85,325.53 / ─	सम्पत्ति सं. 160 का सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं (उक्त पोर्शन), परिमाप 91 वर्ग गज, (पुराना नंबर	₹5. 43,00,000/- ₹5. 4,30,000/-	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	2. ज्योति गुप्ता 160 / 30, गली नंबर 3, रामेश्वर नगर, नई दिल्ली—110019	कब्जा का प्रकार सांकेतिक	45 ए), खसरा नंबर 39 का भाग, जो ग्राम आजादपुर, कालोनी रामेश्वर नगर के नाम से ज्ञात, गली नंबर 3, आजादपुर, दिल्ली में स्थित है और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 44, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : उक्त सम्पत्ति का बाकी हिस्सा, दक्षिण : गली	জ. 50,000 ∕ —	04—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
<b>)</b> .	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001353131	17-03-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति आवासीय	₹5. 21,00,000/-	05-09-2023
-	1. हरीश कुमार जी–83 ए, विजय नगर, सेक्टर–9, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	र्फ. 20,91,301.79 ∕ —	सम्पत्ति सं. जी–83 ए (डी / एस) एलआईजी, ब्लॉक जी, परिमाप 33.03 वर्ग मीटर, जो सेक्टर–9, आवासीय कालोनी, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित	জ. 2,10,000 ∕— জ. 50,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04—09—2023
	2. अजय ढींगरा जी–83 ए, विजय नगर, सेक्टर–9, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 3. लता ढींगरा	कब्जा का प्रकार	है (इसमें आगे "उक्त सम्पत्ति" कही गई है) और निम्नानुसार परिबद्ध है :– पूरब : जी–54 ए, पश्चिम :		पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे
	जी—83 ए, विजय नगर, सेक्टर—9, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201001	भा।तक	जी—84 ए, उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : मकान नंबर जी—82 ए		भेंट के निर्धारित समयानुसार
0.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001774909 एवं HE02EDL00000003477	18—11—2022 ॹ. 1,09,64,483 ∕ —	सम्पत्ति सं. सी—12 / 160, परिमाप 70 वर्ग मीटर (90 वर्ग गज) स्थित ब्लॉक सी—12, यमुना विहार, आवासीय	জ. 1,30,00,000 ∕ — জ. 13,00,000 ∕ —	05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. जमशेद आलम एच नंबर सी—12/160, ब्लॉक सी—12, एटीएम, दिल्ली—110053 अन्य पता : सी—6/328, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली—110053 2. अंजुम आलम उर्फ अंजुम जमशेद सी—12/160, ब्लॉक सी—12, एटीएम, दिल्ली—110053 अन्य पता : सी—6/328, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली—110053	कब्जा का प्रकार भौतिक	स्कीम, इलाका शाहदरा, दिल्ली चौहद्दी : पूरब : सी—12 / 159, पश्चिम : सी—12 / 161, उत्तर : गली, दक्षिण : सर्विस लेन	₹5. 1,00,000 / —	04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
	3. चौधरी जमशेद एंटरप्राइजेज दुकान नंबर 13 मार्किट स्थित सी—12, यमुना विहार, नई दिल्ली—110053 चौधरी जमशेद एंटरप्राइजेज द्वारा इसके एआर/निदेशक/स्वामीगण सी—12/160, यमुना विहार, यमुना विहार शाहदरा, एटीएम, दिल्ली—110053 अन्य पता : सी—6/328, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली—110053 4. सलमान खान पता : सी—12/160, यमुना विहार, नई दिल्ली—110053 अन्य पता : सी—6/328, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली—110053				
					05-09-2023
1.	ऋण खाता सं. X0HEELD00001890235 1. कप्तान सिंह	24—11—2021 रू. 51,00,596.81 / —	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैक साइड	ক. 6,80,000 ∕ —	
1.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005	24—11—2021 रू. 51,00,596.81 / — कुड्जा का प्रकार	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया	ক. 6,80,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023
1.	<ol> <li>कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली–110005</li> <li>प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली–110005</li> </ol>	ক. 51,00,596.81 ∕ —	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय	ক. 6,80,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023
1.	<ol> <li>कप्तान सिंह</li> <li>एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला,</li> <li>गली नंबर 2, नई दिल्ली–110005</li> <li>प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह</li> </ol>	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का प्रकार	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60	ক. 6,80,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे
	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का प्रकार	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी	ক. 6,80,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार
	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार	रू. 51,00,596.81 / — कब्जा का प्रकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पिश्चम : म्पित्त सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश,	্জ. 6,80,000 ∕ — জ. 1,00,000 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे
	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का एकाए सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— कब्जा का एकाए	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड,	জ. 6,80,000 /—  জ. 1,00,000 /—  জ. 3,25,00,000 /—  জ. 32,50,000 /—	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे
	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का एकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /—	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो	জ. 6,80,000 /—  জ. 1,00,000 /—  জ. 3,25,00,000 /—  জ. 32,50,000 /—	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023
2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 3न्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का एकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— कब्जा का एकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड	্জ. 6,80,000 /—  ★. 1,00,000 /—  ★. 3,25,00,000 /—  ★. 32,50,000 /—  ★. 1,00,000 /—	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 उत्तर पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं)	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का एकाए सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— कब्जा का एकाए	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1/2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत/टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122.	্জ. 6,80,000 /—  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं) एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह	रू. 51,00,596.81 /— कब्जा का प्रकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— कब्जा का प्रकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1/2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम राजपुरा छावनी, एरिया न्यू गुप्ता कालोनी के नाम से	্জ. 6,80,000 /—  ★. 1,00,000 /—  ★. 3,25,00,000 /—  ★. 32,50,000 /—  ★. 1,00,000 /—  ★. 72,00,000 /—	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  गेंट के निर्धारित समयानुसार  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  थेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023
2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19 / 120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19 / 120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 उत्तर पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं) एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 3. सुरजीत सिंह	क्र. 51,00,596.81 /— क्रजा का एकाए सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— क्रजा का एकाए सांकेतिक  08—11—2021 रू. 33,94,789.92 /—	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1/2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत/टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम	্জ. 6,80,000 /—  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे मेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे मेंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023
2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. XOHEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. XOHEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं) एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009	क्र. 51,00,596.81 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  08—11—2021 रू. 33,94,789.92 /— क्रजा का प्रकार	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1/2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम राजपुरा छावनी, एरिया न्यू गुप्ता कालोनी के नाम से	্জ. 6,80,000 /—  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे मेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे मेंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार वंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे वंट
3.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं) एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 4. आजाद सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 4. आजाद सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 7ऋण खाता सं. X0HEDHE00001394290 एवं	क्र. 51,00,596.81 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  08—11—2021 रू. 33,94,789.92 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1/2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत् / टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम राजपुरा छावनी, एरिया न्यू गुप्ता कालोनी के नाम से ज्ञात, दिल्ली		पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार 04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे भेंट के निर्धारित समयानुसार 05-09-2023
3.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 3. जन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 2. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 3. जन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 2. जतेन्दर सेंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 3. सुरजीत सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 4. आजाद सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001394290 एवं X0HEEDL00001771282 1. मोहम्मद आजम, डब्यूजैड—36सी/जीएफ, गली नंबर 7, कृष्णा पार्क, नई दिल्ली—110018	क्र. 51,00,596.81 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  08—11—2021 रू. 33,94,789.92 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1 / 2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम राजपुरा छावनी, एरिया न्यू गुप्ता कालोनी के नाम से ज्ञात, दिल्ली  सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : एल—टाइप भू तल, छत के अधिकार नहीं, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड—36सी / 1ए, प्लॉट नंबर 170, क्षेत्रफल परिमाप 75 वर्ग गज, खसरा		पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे  थ्रेन के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  04-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05-09-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  थेट के निर्धारित समयानुसार
1. 2.	1. कप्तान सिंह एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110005 2. प्रियंका राकेश उर्फ प्रियंका सिंह 112, विवेकानंद पुरी सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली—110005 3. मैसर्स कप्तान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी एच एन 19/120, जीएफ ओल्ड रोहतास रोड, गली 2, सराय रोहिल्ला, गली नंबर 2, नई दिल्ली—110035  ऋण खाता सं. X0HEELD00001571988 1. किरण देवी 2. प्रदीप कुमार 3. पंकज कुमार आर्य 1 से 3 तक का पता : ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : सम्पत्ति सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता : पी—73, सेक्टर—11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. परवीन आर्य, ई—27, सेक्टर—55, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. 09, ब्लॉक—ए, सेक्टर—49, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001344212 1. स्व. जसबीर कौर द्वारा इसके कानूनी वारिस (विवरण ज्ञात नहीं) एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 2. जितेन्दर सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 4. आजाद सिंह एच. नंबर 62, प्रथम तल, ब्लॉक—बी, न्यू गुप्ता कालोनी, नई दिल्ली—110009 ऋण खाता सं. X0HEDHE00001394290 एवं X0HEEDL00001771282 1. मोहम्मद आजम,	क्र. 51,00,596.81 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  27—12—2022 रू. 3,48,95,328 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक  08—11—2021 रू. 33,94,789.92 /— क्रजा का प्रकार सांकेतिक	नंबर 112 के भू तल पर भूमि एवं भवन (बैंक साइड पोर्शन), छत / टेरेस के अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 53. 53 वर्ग मीटर अथवा 64 वर्ग गज पर निर्मित (कुल एरिया 160 वर्ग गज का हिस्सा), जो लेआउट प्लान डीसीएम इम्प्लाईज सीएचबीएसएल, विवेकानंद पुरी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली—110007 में स्थित और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : सम्पत्ति सं. 111, पश्चिम : म्पत्ति सं. 113, उत्तर : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : रोड 60 फीट चौड़ी सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉम्ट नंबर 009 ब्लॉक ए, क्षेत्रफल परिमाप 326.70 वर्ग मीटर, स्थित सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : 12.00 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—08, सेक्टर—49, उत्तर : प्लॉट नंबर ए—10, सेक्टर—49, दक्षिण : 45.00 मीटर चौड़ी रोड सम्पत्ति सं. बी—62 (पुराना नंबरबी—1 / 2, 62) का प्रथम तल पोर्शन, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 122. 3 वर्ग गज, खसरा नंबर 129 का हिस्सा, स्थित ग्राम राजपुरा छावनी, एरिया न्यू गुप्ता कालोनी के नाम से ज्ञात, दिल्ली		पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  04—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार  05—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे  थेंट के निर्धारित समयानुसार  05—09—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे  भेंट के निर्धारित समयानुसार

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीदाताओं से https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-notices पर जाने का अनुरोध है। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247; (सम्पर्क व्यक्ति : करण मोदी : 70167 16557– karan@procure247.com, अपूर्व पटेल : 91061 96864- apurva@procure247.com, अल्पेश बोरिसा - alpesh@procure247.com

2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/

auction-notices देखें। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 14-08-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

#### अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिभिटेड सीआईएन - L67120HR1980PLC039125

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 136, भूतल, राइडर हाउस, सेक्टर ४४, गृङ्गांव-122003, हरियाणा, ईमेलः info@aravalisecurities.com, वेबसाइटः www.aravalisecurities.com 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के कथन

क्र.	विवरणों	3.5	समाप्त तिमाही		समाप्त व
स.		30/06/2023 अलेखापरीक्षित	31/03/2023 लेखापरीक्षित	30/06/2022 अलेखापरीक्षित	31/03/202 लेखापरीक्षि
	कुल आय कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	16.18	18.61	19.00	64.66
	(कर से पहले, अपवादात्मक और / या असाधारण मदें से पहले )	(14.79)	(9.11)	(8.77)	(43.97
	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) ( अपवादात्मक और/या असाधारण मदें के बाद)	(14.79)	(9.11)	(8.77)	(43.97)
	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) ( अपवादात्मक और / या असाधारण मदें के बाद)	(14.79)	2.92	(8.77)	(31.87
	अविध के लिए कुल व्यापक आय [अविध (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(14.67)	0.32	(8.71)	(34.21
1	इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षितों(पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए	1515.38	1515.38	1515.38	1515.3
	अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)ः				(1534.18
1	प्रति शेयर आय(रु. 10 / – प्रत्येक का )	000000000000000000000000000000000000000	0.5100.000000	0.0000000000000000000000000000000000000	Sal 100000
	बेसिक डाइलूटड	Rs (0.10) Rs (0.10)	Rs (0.02) Rs (0.02)	Rs (0.06) Rs (0.06)	Rs (0.21)

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। लेखापरीक्षित का पूर्ण प्रारूप वित्तीय परिणाम बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013("अधिनियम") की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार तैयार

किए गए हैं, जो इंड एएस में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। 34 ("अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग") और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाएं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार की जाती हैं और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियमन 33 के अनुपालन में हैं। 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त लेखापरीक्षित परिणाम की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 12 अगस्त,

2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम की सीमित समीक्षा की है और उसी पर असंशोधित राय दी है।

आयकर अधिनियम,1961 के तहत कराधान का प्रावधान सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित कर योग्य आय के आधार पर किया गया है। 6. वर्तमान में कंपनी का परिचालन केवल एक खंड तक ही सीमित है यानी वित्तीय एवं अन्य सलाहकार सेवाएं प्रदान करना और तदनसार इंड एएस

108–ऑपरेटिंग सेगमेंट के अनुसार कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31' मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष वं 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच अंतर वाले संतूलनकरी आंकड़े हैं।

पिछली तिमाही / वर्ष के आंकड़ों को तूलनीय बनाने के लिए, जब भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिनांकः 12 अगस्त, 2023 स्थानः गुड्गांव

2. Diluted:

Date: 12th August, 2023

बोर्ड के आदेशानुसार कृते अरावल सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड हस्ता /- रंजन कुमार पोद्दार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

17.98

180.26

Executive Director & C.E.O.

DIN: 00038580

(प्राधिकृत अधिकारी)

# **NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED**

CIN. L00383DL 18/0FLC 140414 Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982,

Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com, Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125 005, Haryana EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In lakhs, except per share data) Consolidated For the quarter ended For the year ended **Particulars** 30th June, 2022 30th June, 2023 31st March, 2023 31st March 2023 Unaudited Audited Unaudited Audited 2,517.45 957.57 13,350.36 Total income from operations 761.14 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 2,369.13 796.14 1,238.94 12,435.19 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after 12,434.35 Exceptional and/or Extraordinary items) 2,399.42 796.54 1,238.05 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,659.02 9,258.26 923.26 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1,41,264.46 5,874.99 (521.05)(1,72,297.64)Equity Share Capital 513.62 513.62 513.62 Other Equity 7,98,836.74 Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -32.30 10.85 180.26 1. Basic:

Notes:-The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR): (Rs. In lakhs)

10.85

32.30

Standalone						
For the	For the year ended					
30th June, 2023	31st March, 2023	30th June, 2022	31st March 2023			
Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
2,220.53	670.46	468.09	11,207.12			
2,139.69	575.87	386.77	10,911.63			
2,139.69	575.87	386.77	10,911.63			
1,577.94	392.44	281.49	8,094.64			
	30th June, 2023 Unaudited 2,220.53 2,139.69 2,139.69	For the quarter ended  30th June, 2023 31st March, 2023  Unaudited Audited  2,220.53 670.46  2,139.69 575.87  2,139.69 575.87	For the quarter ended  30th June, 2023 31st March, 2023 30th June, 2022  Unaudited Audited Unaudited  2,220.53 670.46 468.09  2,139.69 575.87 386.77  2,139.69 575.87 386.77			

The financial result of the Company for the quarter ended on June 30, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12th August, 2023 and limited review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company

Theses results have been preparted in accordance with the Companies(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Rakesh Kumar Garg Place: Gurugram

# इंडसइंड बैंक

पंजीकृत कार्यालय: 2401, जन. थिमैया रोड (कैन्टोन्मेन्ट), पुणे-411 001 उपभोक्ता वित्त प्रभागः नया नं. 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई-600 017 राज्य कार्यालयः ऑफिस नं. 14 तथा 15, ऊपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि चोराहा, गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर लिंक रोड, जयपुर-302018

#### मांग सूचना का प्रकाशन वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न ऋणधारकों/गारंटरों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई नीचे वर्णित साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा उक्त सुविधाऐं बैंक द्वारा गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है। जैसा कि, उनके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें जारी की गई सूचनाऐं उन्हें प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई तथा इसीलिये उन्हें सार्वजनिक सुचना के द्वारा उसके विषय में सुचित किया जा रहा है।

संचना की स्थानापन्न सेवा के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं अथवा उनके गारंटर (जहाँ भी लाग हो) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये का पुनर्भुगतान करें अन्यथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाया जायेगा। ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि ऋणधारक बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, ऋणधारक.∕ सह−ऋणधारक.∕गारंटर का नाम.⁄ मांग सूचना तिथि.∕बकाया राशि	सम्पत्ति∕प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋण अनुबंध सं.: RJL05158M ऋण राशिः रु. 24,80,000/– मांग सूचना तिथिः 17.7.2023 बकाया राशिः 14.7.2023 को रु. 24,62,333.39/– के साथ उस पर आगे का ब्याज ऋणधारकः श्री बीरपाल सिंह, सी/ओ श्री मनोहर लाल सह-ऋणधारकः श्रीमती किरण देवी, सी/ओ राम सिंह दोनों निवासीः फ्लैट नं. 604, टावर नं. 15, एम-टेक सोसायटी, भिवाडी, अलवर-301019	सम्पूर्ण मकान सं. 5/6, अरावली विहार, भिवाडी, टीएचतिजा जिला-अलवर (राज.) भूमि माप 210.00 वर्ग मी. तथा चौहद्दीः उत्तरः 5/5ः दक्षिणः 5/7, पूर्वः रोड, पश्चिमः 5/15 के साथ उस प फर्नीचर, साजो सामान के साथ उक्त साइट पर निर्मित भवन
2.	ऋण अनुबंध सं.: RJJ05464M ऋण राशिः रु. 24,50,000/– मांग सूचना तिथिः 06.07.2023 बकाया राशिः रु. 25,83,765.29/–, 30.6.2023 को तथा उस पर आगे का ब्याज ऋणधारकः श्री संतोष हलदर, सी/ओ. श्री सुधांशु हलदर, सह–ऋणधारकः श्री/श्रीमती माधवी हलदर, सी/ओ श्री संतोष हलदर गारंटरः श्री संजय हलदर, सी/ओ श्री सुधांशु हलदर सभी निवासीः पी. नं. 4ए, श्री ओम वाटिका, 18 सिरसी रोड, जयपुर–302012	स्कीम कणक विहार, कनकपुरा रेलवे स्टेशन, कलवर रोड, झोटवा जयपुर, राजस्थान, माप 133.33 वर्ग यार्ड्स में स्थित प्लॉट नं. 41 उत्तरी भाग का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैं: उत्तरः रेलवे रोड; दक्षिणः प्लॉट नं. 41 का दिष् भाग; पूर्वः सार्वजनिक रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 40 के साथ उस फर्नीचर, साजो सामान के साथ उक्त साइट पर निर्मित भवन
3.	ऋण अनुबंध सं.: RPP05516M ऋण राशिः रु. 1794000/– मांग सूचना तिथिः 23.6.2023 बकाया राशिः 21.06.2023 को रु. 17,85,854.84/– के साथ उस पर आगे का ब्याज ऋणधारकः श्री सुरजीत कुमार, सी/ओ बंटी सह-ऋणधारक 1: श्री/श्रीमती/सुश्री बंटी चक्रवर्ती, सी/ओ सुनील चक्रवर्ती सह-ऋणधारक 2: श्री/श्रीमती/सुश्री शान्त्वना चक्रवर्ती, सी/ओ बनमाली गोस्वामी सभी निवासीः पी. नं. 18 कुमावत बाड़ी, खटीपुरा, जयपुर-302012	सम्पत्ति सं. पी नं. 66 स्कीम श्री श्याम वाटिका-ए, बिरदायका, जयपु राजस्थान, भूमि माप 111.11 वर्ग यार्ड्स। उक्त सम्पत्ति की चौहद्दी इ प्रकार है: पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 54; उत्तरः पी. नं67, दक्षिणः प्लॉट 65 के साथ उस पर फर्नीचर, साजो सामान के साथ उक्त साइट निर्मित भवन।

तिथिः 14.8.2023 स्थानः जयपुर

कृत्ते, इंडसइंड बैंक लिमिटेड